



Australian Government
Australian Taxation Office

क्या आप एक राइड-सोर्सिंग ड्राइवर हैं?

आपको कर के अपने दायित्वों के बारे में जो जानने की जरूरत है

अगर आप राइड-सोर्सिंग सेवायें (जिन्हें कभी-कभी 'राइड- शेयरिंग' भी कहा जाता है) प्रदान करते हैं, तो आपके दायित्वों का एक उपयोगी संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।



आय कर के लिए

- ✓ आप जो कमाते हैं (जैसे कि किराया, टिप्स और बोनस) उसे आपके वार्षिक आयकर रिटर्न में आपकी कमाई के रूप में शामिल करें।
- ✓ केवल उसी हद तक कटौतियों (डिडक्शन्स) की माँग करें जहाँ तक उनका सीधा संबंध राइड-सोर्सिंग सेवायें प्रदान करने से हो।
- ✓ अपनी कमाई और खर्चों के सारे रेकार्ड्स रखें (आप एटीओ एप्प के मायडिडक्शन्स टूल का उपयोग कर सकते हैं)।

जीएसटी के लिए आपको जरूरत होगी

- ✓ एक एबीएन की
- ✓ आप जिस दिन से शुरुआत करते हैं उसी दिन से जीएसटी के लिए पंजीकरण कराने की, चाहे आपकी कमाई कितनी भी हो
- ✓ फुल फेयर (बगैर किसी छूट के किराया) पर जीएसटी का भुगतान करना
- ✓ व्यासय गतिविधि वक्तव्यों को मासिक या त्रैमासिक (आप वार्षिक रूप से जमा नहीं करा सकते) रूप से जमा कराने की
- ✓ यह जानने की कि टैक्स इनवॉइस कैसे जारी करना है।

फुल फेयर (बगैर किसी छूट के किराया) पर जीएसटी की गणना कैसे करें

जीएसटी की गणना, आपके द्वारा किसी तरह के शुल्क या कमीशन को घटाने के बाद बची रकम पर नहीं बल्कि, फुल फेयर (बगैर किसी छूट के किराया) पर करना आवश्यक है।

आप जिन खर्चों की माँग कर सकते हैं उनमें शामिल है

- ✓ आपके स्वामित्व वाली संपत्तियों, जैसे कि आपकी कार के लिए मूल्य हास
- ✓ वे शुल्क या कमीशन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा लिए गये हों
- ✓ ईंधन
- ✓ एक कार के लिए लीज़ के दौरान किया गया किराये का भुगतान
- ✓ पार्किंग शुल्क
- ✓ टोल्स (अगर यात्री द्वारा टोल भुगतान न किया गया हो तो)।

याद रखें कि आपको व्यवसायिक और निजी उपयोगों के अपने खर्च अलग-अलग रखने होंगे।



आप जिन खर्चों के लिए कर कटौती की माँग नहीं कर सकते उनमें शामिल हैं

- ✗ एक ड्राइवर लाइसेंस लेने और उसे बनाए रखने की लागत
- ✗ जुर्माना (जैसे कि स्पीडिंग या पार्किंग जुर्माने)
- ✗ ईंधन कर क्रेडिट
- ✗ व्यक्तिगत या निजी खर्चों।

उदाहरण

यदि कोई यात्री किराये के रूप में \$55 का भुगतान करता है तो:

- भुगतान योग्य जीएसटी होगी \$5 (कुल किराये का 1/11वाँ हिस्सा)
- डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनी फ्रीस या कमीशन (उदाहरण के लिए \$11 निकाल लेता है और \$44 आपको दे देता है)
- अगर उन \$11 में जीएसटी शामिल है, आप \$1 (कुल किराये का 1/11वाँ हिस्सा) के GST क्रेडिट की माँग कर सकते हैं।

आप अपने द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक खरीदों के लिए भी जीएसटी क्रेडिट की माँग कर सकते हैं।

कार के खर्चों की गणना करना



इसके दो तरीके होते हैं:

- 1) यात्रा किए गए प्रति किलोमीटर सेंट्स के हिसाब से
- 2) माँग किए गए कार खर्चों की गणना करने के लिए लॉगबुक रखना।

ध्यान दें: अगर आप प्रति किलोमीटर सेंट्स का तरीका काम में लेते हैं तो, आप कार के मूल्य हास के लिए अलग से माँग नहीं कर सकते।

यह केवल एक सामान्य सार है। और अधिक जानकारी के लिए, अपने पंजीकृत कर या बीएस एजेंट से बात करें या ato.gov.au/ridesourcing पर जाएं